



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1945 (श०)

(सं० पटना 561) पटना, मंगलवार, 11 जुलाई 2023

सं० 3ए-3-भत्ता-01/2023-6011/वि०
वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
महालेखाकार का कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना,

पटना, दिनांक 10 जुलाई 2023

विषय :-

प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता की आदेयता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 तथा समय-समय पर यथासंशोधित/निर्गत निर्देश द्वारा विहित प्रावधान एवं निहित शर्तों के अधीन राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को मकान किराया भत्ता अनुमान्य है। उसी प्रकार वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12414, दिनांक-31.12.2009 में निहित शर्तों के अधीन वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 द्वारा पुनरीक्षित दर से राज्य कर्मियों को शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य है।

कतिपय विभागों/कार्यालयों/आवेदकों द्वारा प्रतिनियुक्ति के कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता की आदेयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा वित्त विभाग से की जाती रही है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति हो अथवा पदस्थापन, कार्यस्थल स्पष्ट निर्धारित हो जाने की स्थिति में कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

अतः अनुरोध है कि संबंधित नियमावली तथा संकल्पों में निहित शर्तों एवं विहित प्रावधानों के आलोक में संगत कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 561-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>